PNB FINANCE AND INDUSTRIES LIMITED

September 07, 2020

To,
The Calcutta Stock Exchange Limited
7, Lyons Range,
Kolkata – 700 001

Sub: Newspaper advertisement for notice of 125th Annual General Meeting of the Company

Dear Madam,

Please find enclosed the copies of the newspaper advertisement published in Mint (all edition) in English and in Pioneer (Delhi edition) in Hindi on September 07,2020 with subject line "Notice of the 125th Annual General Meeting, Remote E voting and Book Closure"

Notice is published pursuant to MCA circular no. 20/2020 dated May 5th 2020 whereby Company was required to publish details as specified in circular before sending notices to the members of the Company for Annual General Meeting to be conducted through video conferencing for the financial year 2019-20.

The advertisement copies are also available on the Company's website.

This is for your information and records.

Thanking you,

Yours faithfully,

For PNB Finance and Industries Limited

Juli Borne

Shweta Saxena

(Company Secretary)

नीएनबी फाइनैंस ऐण्ड इंडस्ट्रीज लिमिटेड सीआईएन : एल65929डीएल1947पीएलसी001240 ; वेबसाइट : www.pnbfinanceandindustries.com पंजीकृत कार्यालय : प्रथम तल, एक्सप्रेस बिल्डिंग, 9-10, बहादुरशाह जफर मार्ग, नई दिल्ली-110002

फोन : +91-7303495375 ; ई-मेल : pnbfinanceindustries@gmail.com 125वीं वार्षिक सामान्य बैठक की सचना रिमोट ई-वोटिंग जानकारी तथा बही बंदी

एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि :-

कम्पनी की 125वीं वार्षिक सामान्य बैठक ("एजीएम") बुधवार, 30 सितम्बर, 2020 को पूर्वा 10.00 बजे (आईएसटी), कम्पनी अधिनियम, 2013 के लागू प्रावधानों एवं तदधीन विरचित नियमों तथा सेबी (सूचीयन दायित्व और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियमावली, 2015 के साथ पठित कार्पोरेट मंत्रालय द्वारा जारी जनरल सर्कुलर नंबर 14/2020 दिनांकित 08 अप्रैल 2020, जनरल सर्कुलर नंबर 17/2020 दिनांकित 13 अप्रैल, 2020 तथा जनरल सर्कुलर नंबर 20/2020 दिनांकित 5 मई. 2020 तथा अन्य लागू सर्कुलर्स ("एमसीए सर्कुलर्स") तथा भारतीय प्रतिभृति एवं विनिमय बोर्ड द्वारा जारी सर्कुलर नंबर सेबी/एचओ/सीएफडी/ सीएमडी1/सीआईआर/पी/2020/79 दिनांकित 11 मई, 2020 ('सेबी सर्कुलर') र अनुपालन में, किसी उमय स्थान पर सदस्यों की मौतिक उपस्थिति के बिना, वीडियो कॉन्फ्रेन्सिंग ('वीसी') सुविधा के माध्यम से, 125वीं एजीएम की सूचना में सूचीबद्ध साधारण एवं विशेष व्यवसायों के निष्पादन हेतु आयोजित की जाएगी। एमसीए सर्कुलर्स तथा सेबी सर्कुलर्स के निबन्धनों में, सदस्यों को एजीएम की सूचना तथ

वार्षिक रिपोर्ट की भौतिक प्रति भेजने की आवश्यकता समाप्त कर दी गई है, अतएव कम्पनी इसकी 125वीं एजीएम की सूचना तथा वार्षिक रिपोर्ट 2019-20 सदस्यों को उनके पंजीकृत ई-मेल आईडी पते पर भेज रही है। उपरोक्त दस्तावेज कम्पनी की वेबसाइव www.pnbfinanceandindustries.com पर तथा एनएसडीएल की वेबसाइट https://www.evoting.nsdi.com पर भी उपलब्ध होंगे तथा भौतिक अथवा अभौतिक रूप में शेयरों के घारक उन सदस्यों, जिनका ई-मेल पता कम्पनी के पास पंजीबद्ध नहीं है को अपना ई-मेल पता स्काईलाइन फाइनैंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड (रजिस्ट्रार एवं ट्रांसफर एजेन्ट) के पास पंजीकृत करवाने के लिए, एक अनुरोध पत्र, अपने नाम, फोलियं नंबर, शेयरों की संख्या, सर्टिफिकेट नंबर इत्यादि तथा इलेक्ट्रॉनिक क्लीयरिंग सर्विस वं माध्यम से लाभांश के भुगतान हेतु खाता विवरण का उल्लेख करते हुए, ई-मेल आईडी parveen@skylinerta.com पर 23 सितम्बर, 2020 को या उससे पहले मेजना होगा वे सदस्य जो विच्छेदन तिथि (कट-ऑफ डेट) 23 सितम्बर, 2020 को मौतिक या अभौतिक रूप में शेयरों के घारक हैं, 125वीं एजीएम की सूचना में उल्लेखित साघारण तथा विशेष व्यवसायों के संबंध में अपना बोट इलेक्ट्रॉनिक विधि से नैशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड ("एनएसडीएल") के इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम ("रिमोट ई-वोटिंग") के जरिये डाल

सभी सदस्यों को सूचना दी जाती है कि :-

(i) 125वीं एजीएम की सूचना में सूचीबद्ध साधारण तथा विशेष व्यवसाय का निष्पाद इलेक्ट्रॉनिक साधनों द्वारा वोटिंग के माध्यम से किया जाएगा ;

(ii) रिमोट ई-वोटिंग आरंम होने की तिथि एवं समय : 26 सितम्बर, 2020 को (पर्वा, 09.00 बजे) : (iii) रिमोट ई—वोटिंग समाप्त होने की तिथि एवं समय : 29 सितम्बर, 2020 को (अप. 05.00 बजे) ; (iv) रिमोट ई—वोटिंग द्वारा अथवा 125वीं एजीएम के दौरान ई—वोटिंग सिस्टम द्वारा वोट डाल के अधिकार निर्धारण हेत् विच्छेदन तिथि (कट-ऑफ डेट) 23 सितम्बर, 2020 है :

(v) कोई व्यक्ति जो ई—मेल द्वारा एजीएम की सूचना भेजी जाने के बाद कम्पनी का सदस्य बनता है और विच्छेदन तिथि (कट—ऑफ डेट) 21 अगस्त, 2020 को शेयर घारक है. evoting@nsdl.co.in अथवा pnbfinanceindustries@gmail.com पर अनुरोध भेजकर लॉगइन आईडी तथा पासवर्ड प्राप्त कर सकता है।

(vi) सदस्यगण नोट करें कि क) एनएसडीएल द्वारा रिमोट ई-वोटिंग मॉड्यूल उपरोक्त तिथि और समय के बाद वोटिंग के लिए निष्क्रिय कर दिया जाएगा तथा सदस्य द्वारा किसी प्रस्ताव पर एक बार वोट डाल दिए जाने के बाद उसमें परिवर्तन की अनुमति नहीं होगी ; ख) सदस्य जो एजीएम से पहले रिमोट ई-वोटिंग द्वारा अपना वोट डाल चुके हैं, वीसी सुविधा के माध्यम से एजीएम में माग ले सकते हैं, परंत् उनको एजीएम के दौरान ई-वोटिंग सिस्टम द्वारा दोबारा वोट डालने की अनुमति नहीं होगी ; ग) एजीएम में भाग ले रहे सदस्य जिन्होंने रिमोट ई-वोटिंग द्वारा अपना बोट नहीं डाला है, एजीएम के दौरान ई-वोटिंग सिस्टम द्वारा बीट डालने का इकदार होंगे : घ) कोई व्यक्ति, जिसका नाम विच्छेदन तिथि (कट–ऑफ डेट) को सदस्य पंजिका में दर्ज है, वह रिमोट ई–वोटिंग की सुविधा का लाम प्राप्त करने, वीसी सुविधा के माध्यम से एजीएम में माग लेने तथा एजीएम के दौरान ई-वोटिंग का हकदार होगा।

rii) किसी संदेह की स्थिति में, आप वेबसाइट <u>www.evoting.nsdl.com</u> के "डाउनलो सेक्शन" के अन्तर्गत उपलब्ध शेयरधारकों के लिए फ्रिक्वेंटली आस्वड क्वेशचन्स (एफएक्यू'ज) तथा शेयरघारकों के लिए ई-वोटिंग यूजर मैनुअल का संदर्भ ग्रहण कर सकते हैं अथव टोलफ्री नंबर 1800-222-990 पर सम्पर्क कर सकते हैं अथवा evoting@nsdl.co.in पर अन्रोध भेज सकते हैं अथवा सुब्री पल्लवी म्हात्रे, प्रबंधक अथवा सुब्री सोनी सिंह, सहायक प्रबंधक, नैशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड, ट्रेड वर्ल्ड, 'ए' विंग, चतुर्थ तल, कमला मिल्स कम्पाउण्ड, सेनापति बापट मार्ग, लोअर परेल, मुंबई-400013 से नामित ई-मेल आईडी - evoting@nsdl.co.in अथवा pallavid@nsdl.co.in अथवा sonis@nsdl.co.in अथवा फोन नंबर : +91-22 24994545, +91 22 24994559 पर सम्पर्क कर सकते हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक साधनों द्वारा वोटिंग के साथ संबंधित शिकायतों क निवारण करेंगे।

कम्पनी के सदस्यों की पंजिका तथा शेयर अंतरण बहियां 24 सितम्बर, 2020 से 30 सितम्बर, 2020 तक (दोनों तिथियों सहित) लामांश के मुगतान के प्रयोजनार्थ बंद रहेंगी। ऐसे सदस्य जो अपना इलेक्टॉनिक बैंक आदेश कम्पनी में पंजीकत नहीं करवा सकेंगे, कम्पनी उन सदस्यो को लाभांश का चैक, स्थिति सामान्य होने पर, यथाशीघ पंजीकृत डाक द्वारा मेजेगी। वास्ते पीएनबी फाइनैंस ऐण्ड इंडस्ट्रीज लिमिटेर

तिथि : 05 सिल्प्बर, 2020 स्थान : नई दिल्ली

श्वेता सक्सेन



डेल्टन केबल्स लिमिटेड सीआईएन :- एल३१३००डीएल१९६४पीएलसी००४२५५

वेबसाइट :- www.deltoncables.com पंजी. कार्यालय :– डेल्टन हाउस 4801, भारत राम रोड 24 दरियागंज, नई दिल्ली - 110002

फोन :- 011-23273907, ई-मेल :- dcl@deltoncables.com,

सूचना

एतदृद्वारा सूचना दी जाती है कि डेल्टन केबल्स लिमिटेड के सदस्यों की पचपनवीं (55वीं) वार्षिक सामान्य बैठक (एजीएम), बुधवार, 30 सितम्बर, 2020 को पूर्वा. 10.30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेन्सिंग ('बीसी')/अन्य ऑडियो विजुअल मीन्स ('ओएबीएम') के माध्यम से, एजीएम की सूचना में विनिर्दिष्ट व्यवसाय के निष्पादन हेतु, आयोजित की जाएगी।

कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 91 तथा कम्पनी (प्रबंधन और संचालन) नियमावली, 2014, यथ संशोधित के अनुसार कम्पनी के सदस्यों की पंजिका तथा शेयर हस्तांतरण बहियां, उपरोक्त एजीएम के उद्देश्यार्थ, बृहस्पतिवार, 24 सितंबर 2020 से बुधवार, 30 सितंबर 2020 (दोनों दिन सम्मिलित)

55वीं एजीएम की सूचना, वार्षिक रिपोर्ट 2019-20 सहित उन सदस्यों को केवल इलेक्ट्रॉनिक विधि द्वारा भेजी गई थी. जिनका ई-मेल पता कम्पनी/डिपॉजिटरीज के पास पंजीबद्ध है। कम्पनी अधिनियम, 2013 की घारा 108 के साथ पठित कम्पनी (प्रबंधन और संचालन) नियमावली, 2014 समय समय पर संशोधित. के नियम 20. तथा सेबी (सचीयन दायित्व एवं प्रकटन अपेक्षाएं) विनियमावली, 2015, समय समय पर संशोधित, के विनियम 44 के अनुसरण में, कम्पनी, इसके सदस्यों को, एजीएम में विचारित किए जाने हेतु प्रस्तावित सभी प्रस्तावों पर, सेन्ट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड (सीडीएसएल) द्वारा उपलब्ध कराई गई ई-वोटिंग सेवाओं के जरिये इलेक्ट्रॉनिक विधि से वोट डालने की सुविधा उपलब्ध करा रही है।

इसके अतिरिक्त, एजीएम में भी ई-वोटिंग हेतु सुविधा उपलब्ध होगी। जो सदस्य अपना वोट, एजीएम से पहले रिमोट ई-वोटिंग द्वारा डाल चुके हैं, वे भी वीडियो कॉन्फ्रेन्सिंग ('वीसी')/अन्य ऑडियो विजुअल मीन्स ('ओएवीएम') के माध्यम से एजीएम में उपस्थित हो सकते हैं. परंतु उनको एजीएम में अपना वोट डालने का अधिकार नहीं होगा।

श्री वैभव शर्मा, पूर्ण-कालिक कार्यरत कम्पनी सेक्रेटरी स्वामी मैसर्स वैभव शर्मा ऐंड एसोशिएट्स कम्पनी सेक्रेटरीज को रिमोट ई-वोटिंग तथा एजीएम में ई-वोटिंग प्रक्रिया की संवीक्षा निष्पक्ष एवं पारदर्शी ढंग से करने हेत् संवीक्षक नियक्त किया गया है।

सभी सदस्यों को सुचित किया जाता है कि : कम्पनी की 55वीं एजीएम की सूचना में सूचीबद्ध साधारण व्यवसाय तथा विशव व्यवसाय

निष्पादन इलेक्ट्रॉनिक साधनों से वोटिंग द्वारा किया जा सकता है : रिमोट ई-वोटिंग अवधि रविवार, 27-09-2020 को (पूर्वा, 10.00 बजे आईएसटी) आरंभ होगी

रिमोट ई-वोटिंग अवधि मंगलवार, 29-09-2020 को (अप. 5.00 बजे आईएसटी) समाप्त होगी iv) कट-ऑफ तिथि बुधवार, 23-09-2020 है।

कोई व्यक्ति जो कम्पनी द्वारा सचना पेषण के बाद कम्पनी के शेयर अर्जित करता है तथ कम्पनी का सदस्य बनता है और विच्छेदन तिथि अर्थात 23-09-2020 को भौतिक/डीमैट शेयरों का धारक है, helpdesk.evoting@cdslindia.com पर अनुरोध मेज कर अथवा 022-23058542/43 पर कॉल करके लॉगइन आईडी और पासवर्ड प्राप्त कर सकता है। यही प्रक्रिया डीमैट / भौतिक रूप में शेयरों के धारक उन सदस्यों द्वारा अपनाई जा सकती है, जिनके द्वारा अपनी ई-मेल आईडीज पंजीकृत/अद्यतन नहीं करवाई गई है, इस हेतु सत्यापन विवरण जैसे कि फोलियों नंबर, डीपी आईडी/क्लाइंट आईडी, पैन (स्कैन प्रति), डीमैट खाता विवरण भेजना होगा। तथापि, यदि कोई सदस्य रिमोट ई-वोटिंग के लिए सीढीएसएल के साथ पहले से पंजीकृत है, तो विद्यमान यूजर आईडी तथा पासवर्ड / पिन का प्रयोग बोट डालने के लिए किया जा सकता है। यदि कोई सदस्य पासवर्ड मूल जाता है, तो वह www.evotingindia.com पर उपलब्ध "Forgot User Details/Password" का प्रयोग कर पासवर्ड दोबारा बन

सकता है। vi) सदस्यगण नोट करें कि

मंगलवार, 29-09-2020 को (अप. 5.00 बजे आईएसटी) के बाद रिमोट ई-वोटिंग की अनुमति नहीं होगी

ख) कम्पनी की एजीएम में ई-वोटिंग हेतु सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी तथा एजीएम में उपस्थित ऐसे सदस्य, जिनके द्वारा अपना वोट रिमोट ई-वोटिंग द्वारा नहीं डाला गया है, वे एजीएम मे वोट डालने हेतु ग्राह्म होंगे ;

सदस्य अपना वोट रिमोट ई-वोटिंग द्वारा डालने के बाद भी एजीएम में भाग ले सकता है परंतु उसको दोबारा वोट डालने की अनुमति नहीं होगी ;

घ) केवल वह व्यक्ति रिमोट ई-बोटिंग अथवा एजीएम के दौरान ई-बोटिंग की सुविधा प्राप्त करने का हकदार होगा, जिसका नाम डिपॉजिटरीज द्वारा अनुरक्षित लामार्थी स्वामियों अथवा सदस्यों की पंजिका में, कट-ऑफ तिथि अर्थात 23 सितम्बर, 2020 को, दर्ज मौजूद होगा ;

vii) 55वीं एजीएम की सूचना कम्पनी की वेबसाइट (www.deltoncables.com) सीडीएसएल की वेबसाइट (www.evotingindia.com) पर उपलब्ध होगी ; तथा

viii) एजीएम से पहले अथवा उसके दौरान किसी संदेह की स्थिति में सदस्य www.evotingindia.com के हेल्प सेक्शन पर उपलब्ध शेयरधारकों के लिए ई-वोटिंग यूजर मैनुअल तथा बहुघा पूछे जाने वाले प्रश्न ("एफएक्य'जू") का संदर्भ ग्रहण कर सकते हैं अथवा helpdesk.evoting@cdslindia.com को ई-मेल लिख सकते हैं अथवा श्री नितिन कुन्दर (022-23058738) अथवा श्री महबूब लखानी (022-23058543) अथवा श्री राकेश दाल्वी (022-23058542) से सम्पर्क कर सकते हैं।

इस सूचना में दी गई जानकारी कम्पनी की वेबसाइट (www.deltoncables.com) पर तथ बीएसई लिमिटेड की वेबसाइट (www.bseindia.com) पर भी उपलब्ध होगी। इसके अतिरिक्त यह कम्पनी की एजीएम के संबंध मं 29 अगस्त, 2020 को प्रकाशित इक्विटी शेयरधारकों को कम्पनी सूचना दिनांकित 28 अगस्त, 2020 के संदर्भ में है, जिसमें हमने असावधानीवश रिमोट ई-वोटिंग आरंभ होने का समय पूर्वा. 10.00 बजे के स्थान पर पूर्वा. 9.00 बजे वर्णित किया है. जबकि अन्य विवरण और तिथियां सही हैं। कृपया रिमोट ई-वोटिंग आरंम होने का समय पूर्वा. 10.00 बजे के रूप में पढ़ें।

कृते डेल्टन केंबल्स लिमिटेड

धान : दिल्ली विकास राव तिथि : 28-08-2020 कम्पनी सचिव तथा अनुपालनाधिकारी

सेरेना जोरदार वापसी के साथ चौथे दौर में

दुनिया की पूर्व नंबर एक खिलाड़ी सेरेना विलियम्स ने पिछड़ने के बाद जोरदार वापसी करते हुए पूर्व चैंपियन स्लोएन स्टीफंस को हराकर अमेरिकी ओपन टेनिस टर्नामेंट के चौथे दौर में

सेरेना पर 22 साल पहले अमेरिकी ओपन में पदार्पण के बाद इस ग्रैंडस्लैम टूर्नामेंट से सबसे जल्दी बाहर होने का खतरा मंडरा रहा था लेकिन छह बार की इस पूर्व चैंपियन ने अंतिम 12 में से 10 गेम जीतकर हमवतन अमेरिकी खिलाड़ी स्टीफंस को 2-6, 6-2, 6-2 से हराकर फ्लशिंग मिडोज से बाहर का रास्ता दिखा दिया। शनिवार को मैच के दौरान दर्शकों के बीच सेरेना की तीन साल की बेटी ओलंपिया भी मौजूद

जीडीपी को हो सकता

है २० लाख करोड़ का

देश के सकल घरेलू उत्पाद

(जीडीपी) में पहली तिमाही में

करीब एक-चौथाई की भारी गिरावट

आने के सवाल पर पूर्व वित्त सचिव

सभाष चंद्र गर्ग ने कहा है कि यह

नकसान देशव्यापी लॉकडाउन लगाने

की रणनीति सही नहीं होने के कारण

हआ है। उनका आकलन है कि

अर्थव्यवस्था को चालू वित्त वर्ष में

20 लाख करोड़ रुपए की क्षति हो

सकती है। गर्ग ने कहा कि लॉकडाउन

से कोरोना वायरस महामारी का प्रसार

शुरू में धीमा जरूर पड़ा लेकिन

अर्थव्यवस्था को इससे कहीं ज्यादा

नुकसान हुआ। गर्ग का मानना है कि

आर्थिक हालात कहीं जाकर चौथी

तिमाही जनवरी-मार्च 2021 तक ही

सामान्य हो सकेंगे, तब तक देश के

जीडीपी को कोविड-19 और उससे

जनित प्रभावों से कुल 10,11 प्रतिशत

यानी करीब 20 लाख करोड़ रुपए की

चिदंबरम ने सरकार से

अर्थव्यवस्था को सुधारने

के लिए लें अधिक कर्ज

नई दिल्ली। पूर्व केंद्रीय वित्त मंत्री

पी चिदंबरम ने मांग को प्रोत्साहित

करने और देश की अर्थव्यवस्था को

पनर्जीवित करने में मदद करने के

लिए सरकार को अधिक उधार लेने

का रविवार को सुझाव दिया। वरिष्ठ

कांग्रेस नेता ने धन जुटाने के कुछ

उपाय भी सुझाए, जिनमें

एफआरबीएम मानदंडों में ढील,

विनिवेश में तेजी और वैश्विक बैंकों

से धन उधार लेना शामिल है।

अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने के

उपायों के तहत, उन्होंने राज्यों की

माल एवं सेवा कर (जीएसटी)

क्षतिपूर्ति का भुगतान करने के

अलावा, 50 प्रतिशत गरीब परिवारों

को नकद हस्तांतरित करने, उन्हें

खाद्यान्न देने और बुनियादी ढांचे पर

खर्च बढ़ाने की मांग की। उन्होंने

ट्वीट किया, मांग व खपत को

प्रोत्साहित करने और अर्थव्यवस्था को

पुनर्जीवित करने के लिए कुछ ऐसे

ठोस कदम उठाए जा सकते हैं, सबसे

गरीब 50 प्रतिशत परिवारों को कुछ

नकदी हस्तांतरित करें। ऐसे सभी

परिवारों को खाद्यान्न दें. जिन्हें इसकी

चालू वित्त वर्ष में वृद्धि दर

के शून्य से ऊपर रहने की

संभावना को खारिज नहीं

किया जा सकताः रंगराजन

नई दिल्ली। चालू वित्त वर्ष में देश की

आर्थिक वृद्धि दर शून्य से कुछ उप्रर रहने

की संभावना से इनकार नहीं किया जा

सकता है, क्योंकि लॉकडाउन के बाद

भी पहली तिमाही में कृषि जैसे क्षेत्र

तथा आवश्यक वस्तुओं व सेवाओं का

काम पूरी तरह से चल रहा था। एक

रिपोर्ट में यह संभावना व्यक्त की गई है,

जिसका सह-लेखन रिजर्व बैंक के पूर्व

गवर्नर सी रंगराजन ने किया है। रंगराजन

और ईवाई इंडिया के प्रमुख नीति

सलाहकार डी के श्रीवास्तव द्वारा संयुक्त

रूप से लिखी गई रिपोर्ट भारत की

आर्थिक वृद्धि की संभावनाएं एवं

नीतिगत विकल्पः महामारी के प्रकोप से

बाहर निकलना में महामारी और भारतीय

अर्थव्यवस्था पर इसके प्रभाव की

कहानी का वर्णन किया गया है। भले

ही कई राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय

एजेंसियों ने 2020-21 में भारत के

सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में बड़ी

गिरावट आने का अनुमान व्यक्त किया

है, ऐसी संभावनाएं हैं जिनके आधार पर

यह माना जा सकता है कि परिणाम इन

अनुमानों से ठीक-ठाक बेहतर हो

आवश्यकता है।

कहार मांग बढ़ाने,

क्षति हो चुकी होगी।

नुकसान : गर्ग

भाषा। नई दिल्ली



थी। मास्क पहनकर अपने पिता की गोद में बैठी हुई ओलंपिया ने जीत के बाद अपनी मां की तरफ हाथ लहराए। सेरेना ने भी लॉकर रूम की तरफ लौटते हुए अपनी बेटी को देखकर हाथ लहराया। अगले दौर में सेरेना का सामना यूनान की मारिया सकारी से होगा जिन्होंने अमेरिकी की 19 साल की अमांडा एनिसिमोवा को 6-3, 6-

0

बोपन्ना-शापोवालोव क्वार्टर फाइनल में

न्यूयॉर्क । भारत के अनुभवी खिलाड़ी रोहन

बोपन्ना और कनाडा के उनके जोडीदार डेनिस शापोवालोव की जोडी ने छठे वरीय केविन क्रविटन और आंद्रियास मिएस की नोडी को कडे मुक्तबले में हराकर अमेरिकी ओपन टेनिस टुर्नामेट के पुरुष युगल के छार्टर पाइनल मे जगह बनाई। भारत और कनाडा की गैरवरीय जोड़ी ने शनिवार को हुए इस दूसरे दौर के मुकाबले में पहला सेट गंवाने के बाद वापसी करते हुए जर्मनी की जोड़ी को एक घंटा और ४७ मिनट में ४-६ ६-४ ६-३ से शिकस्त दी। बोपन्ना और शापोवालोव स्तर्टर प्राइनल मे जीन जुलियन रोजर और होरिया तेकऊ की जोड़ी से भिड़ेगे। सुमित नागल और दिविज शरण के बाहर होने के बाद बोपन्ना टुर्नामेट मे एकमात्र भारतीय खिलाड़ी बचे है।

रूंगटा इर्रिगेशन लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय : 101, प्रगति टावर, 26, राजेन्द्र प्लेस, नई दिल्ली—11000 टेलीफोन : 011-4345330 फैक्स : 91-11-25716231

वेबसाइट : www.rungtairrigation.in । ई-मेल आईडी : cs@rungtairrigation.in हमारे पूर्व विज्ञापन दिनांकित 3 सितम्बर, 2020 के क्रम में, एतदृद्वारा सूचना दी जाती है कि कम्पनी की 36वीं वार्षिक सामान्य बैठक मंगलवार, 29 सितम्बर, 2020 को पूर्वा. 11.00 बजे, कम्पनी अधिनियम, 2013 के लागू प्रावधानों और तदधीन विरवित नियमों के साथ पठित एमसीए/सेबी सर्कुलर्स के अनुपालन में, किसी उमय स्थान पर सदस्यों के भौतिक रूप से उपस्थित हुए बगैर, वीडियो कॉन्फ्रेन्सिंग (वीसी)/अन्य ऑडियो

विजुअल मीन्स (ओएवीएम) के माध्यम से आयोजित की जाएगी। उपरोक्त सर्वृतर्स के अनुपालन में, वर्युअल एजीएम की सूचना तथा वित्तीय वर्ष 2019−2020 हेतु वार्षिक रिपोर्ट इलेक्ट्रॉनिक विधि द्वारा उन समी सदस्यों को मेजी जा चुकी है, जिनकी ईं–मेल आईडी कम्पनी∕डीपी के पास 7 सितानर, 2020 को अथवा पूर्व पंजीकृत हैं। सदस्यों को एजीएम की सूचना तथा वित्तीय वर्ष 2019-2020 हेतु वार्षिक रिपोर्ट की मीतिक प्रति मंजने की आवश्यकता संबद्ध सर्कुलर्स द्वारा समाप्त कर दी गई है तथा कम्पनी की वेबसाइट www.rungtairrigation.in पर तथा बीएसई लिमिटेड की वेबसाइट www.bseindia.com पर भी उपलब्ध होंगी।

कम्पनी अधिनियम २०१३ की घारा १०८ के पालगानों के साथ पटित तटधीन विश्वित नियमों तथा सेवी (एलओडीआर) विनियमावली, 2015 के विनियम 44 के अनुसरण में कम्पनी विच्छंदन तिथि (कट-ऑफ डेट) मंगलवार 22 सितम्बर 2020 को शेयरों के धारक इसके सदस्यों को आगामी एजीएम में उनके मताधिकार हा प्रयोग, बैठक के स्थान से इतर किसी अन्य स्थान से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम द्वारा करने के लिए. —वोटिंग (ई–वोटिंग) सुविधा उपलब्ध करा रही हैं। कम्पनी ने रिमोट ई–वोटिंग सुविधा उपलब्ध कराने हेतु सीडीएसएल को अनुबंधित किया है। कम्पनी अधिनियम, 2013 की घारा 108 के प्रावधानों के साथ पठित तदधीन विरिधत नियमों के अनुसरण में विस्तृत विवरण निम्नानुसार हैं :

ई-वोटिंग अवधि शनिवार, 26 सितम्बर, 2020 को पूर्वा. 10.00 बजे आरंम होगी तथा सोमवार, 28 सितम्बर, 2020 को अप. 5.00 बजे समाप्त होगी। 28 सितम्बर, 2020 को अप. 5.00 बजे के बाद इलेक्ट्रॉनिक साधनों द्वारा गवदान की अनुगति नहीं होगी। एजीएन की सूचना में सूचीबद्ध व्यवसाय का निष्पादन एजीएम में ई—वोटिंग सुविधा द्वारा किया जा सकता है।

कम्पनी की शेयर हस्तांतरण बहियां बुधवार, 23 सितम्बर, 2020 से मंगलवार, 29 सितम्बर, 2020 तक (दोनों दिन सहित) वार्षिक बैठक के प्रयोजनार्थ बंद रहेंगी। सदस्यों को वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम से जुड़ने की सुविधा बैठक आरंग होने के निर्धारित समय से 30 मिनट पहले और बाद में प्रथम

आगत प्रथम स्वागत आधार पर उपलब्ध होगी। सदस्यों का बोटिंग अधिकार विच्छेदन तिथि (कट-ऑफ डेट) मंगलवार, 22 सितम्बर, 2020 को कम्पनी की प्रदत्त इक्किटी शेयर पूंजी में उनके शेयरों के अनुपात में होगा। कोई व्यक्ति जो एजीएम की सूचना प्रेषण के बाद कम्पनी का सदस्य बनता है और विच्छेदन विधि (कट-ऑफ ढेट) मंगलवार, 22 सितम्बर, 2020 को शेयरों का धारक है, वह helpdesk@cdslindia.com अथवा cs@rungtairrigation.in पर अनुरोध मेजकर लॉगइन आईडी तथा पासवर्ड प्राप्त कर सकता है। सदस्यों से रिमोट लॉगइन क्रेडेन्शियल्स का प्रयोग करते हुए http://www.evotingindia.com/ लॉगइन करने का अनुरोध किया जाता है। बैठक के दौरान बीसी/ओएबीएम के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक प्रतिमागिता के लिए लिंक, शेयरधारकों के लॉगइन पोर्टल में उपलब्ध होगा जहां कम्पनी का ईवन (ई-वोटिंग इवेंट नंबर) प्रदर्शित किया जाएगा। सदस्यों द्वारा परोक्षी की नियुक्ति हेतु सुविधा उपलब्ध नहीं होगी, क्योंकि एजीएम वीसी/ओएबीएम के माध्यम से आयोजित की जा रही है। कोई व्यक्ति जो विच्छेदन तिथि (कट-ऑफ डेट) को सदस्य नहीं है, उसको एजीएम की सूचना केवल जानकारी व निमित्त समझनी चाहिए।

ई-बोटिंग तथा वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में भाग लेने संबंधी किसी संदेह अथवा शिकायत के लिए, सदस्यगण श्री राकेश दाली, प्रबंधक, सीढीएसएल, ए विंग, 25वां तल, मैराधन फ्यूवरेक्स, गफतलाल मिल कम्पाउण्ड्स, एन एम जोशी मार्ग, लोजर परेल, ईस्ट मुंबई-400013, ई-मेल : evoting@cdslindia.com, फोन : 1800-225-533 पर सम्पर्क कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त, सदस्यगण श्री पुनीत मिस्तल, बीटल फाइनैशियल ऐंड कम्प्यूटर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, आरटीए से मी <u>beetairta@gmail.com</u> पर अथवा फोन नंबर : 011–29961281एवं 011–29961282 पर सम्पर्क

परिणामों की घोषणा बैठक की समाप्ति से अधिकतम अड़तालीस घंटे के मीतर उनको कम्पनी की वेबसाइट www.rungtairrigation.in पर प्रकाशित करने तथा बीएसई तिमिटेड को प्रस्तुत करने द्वारा की जाएगी। यह कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय में सूचना पट पर भी प्रदर्शित किए जाएंगे। सदस्य रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से वोट डालने के बाद भी एजीएम में भाग ले सकता है, परंतु उसक

बैठक में पुनः वोट डालने का अधिकार नहीं होगा। जिन सदस्यों ने अपनी ई-मेल आईंडी पंजीबद्ध नहीं करवाई है, उनसे अनुरोध है कि एजीएम की सूचन तथा वार्षिक रिपोर्ट 2019-20 प्राप्त करने के लिए अपनी ई-मेल आईडी पंजीबद्ध करवाने की प्रक्रिया के बारे में जानने के लिए हमारा पूर्व विज्ञापन दिनांकित 3 सितम्बर, 2020 देखें।

वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में भाग लेने वाले सभी शेयरधारकों /सदस्यों, जो बोलना चाहते हैं अथवा प्रश्न पूछना चाहते हैं, उनको अपना पंजीकरण 21 सितम्बर, 2020 को अथवा पूर्व अपने फोलियो नंबर हीपी आईही / क्लाइंट आईही ई-मेल आईही तथा मोबाइल नंबर के साथ कम्पनी की ई-मेल आईही cs@rungtairrigation.in पर करवाना होगा।

प्रतीक शर्मा

तिथि : 07-09-2020

कैमैक कॉमर्शियल कम्पनी लिमिटेड

(सीआईएन : एल70109डीएल1980पीएलसी169318) पंजीकृत कार्यालय : प्रथम तल, एक्सप्रेस बिल्डिंग, 9-10, बहादुरशाह जफर मार्ग, नई दिल्ली-110002

मोबाइल नंबर : 7303495374, ई-मेल : camaccommercial@gmail.com वेबसाइट : www.camaccommercial.com

40वीं वार्षिक सामान्य बैठक की सूचना रिमोट ई-वोटिंग जानकारी तथा बही बंदी

एतदद्वारा सूचना दी जाती है कि :-

1. कम्पनी की 40वीं वार्षिक सामान्य बैठक ("एजीएम") बुधवार, 30 सितम्बर, 2020 को पूर्वा. 10.15 बजे (आईएसटी), कम्पनी अधिनियम, 2013 के लागू प्रावधानों एवं तदधीन विरक्षित नियमों तथा सेबी (सूबीयन दायित्व और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियमावली, 2015 के साथ पठित कार्पोरेट मंत्रालय द्वारा जारी जनरल सर्कुलर नंबर 14/2020 दिनांकित 08 अप्रैल, 2020, जनरल सर्कुलर नंबर 17/2020 दिनांकित 13 अप्रैल, 2020 तथा जनरल सर्कलर नंबर 20/2020 दिनांकित 5 मई. 2020 तथा अन्य लागू सर्कुलर्स ("एमसीए सर्कुलर्स") तथा मारतीय प्रतिमूति एवं विनिमय बोर्ड द्वारा जारी सर्कलर नंबर सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएमडी1/सीआईआर/पी/2020/79 दिनांकित 11 मई, 2020 ('सेबी सर्कुलर') के अनुपालन में, किसी उमय स्थान पर सदस्यों की भौतिक उपस्थिति के बिना, वीडियो कॉन्फ्रेन्सिंग ("वीसी") सुविधा के माध्यम से, 40वीं एजीएम की सूचना में सूचीबद्ध साधारण एवं विशेष व्यवसायों के निष्पादन हेत् आयोजित की जाएगी।

एमसीए सर्कुलर्स तथा सेबी सर्कुलर्स के निबन्धनों में, सदस्यों को एजीएम की सूचना तथा वार्षिक रिपोर्ट की भौतिक प्रति मेजने की आवश्यकता समाप्त कर दी गई है, अतएव कम्पनी इसकी 40वीं एजीएम की सूचना तथा वार्षिक रिपोर्ट 2019-20 सदस्यों को उनके पंजीकृत ई-मेल आईडी पते पर भेज रही है। उपरोक्त दस्तावेज कम्पनी की वेबसाइट www.camaccommercial.com पर तथा सीडीएसएल की वेबसाइट www.evotingindia.com पर भी उपलब्ध होंगे तथा पंजीबद्ध नहीं है, को अपना ई-मेल पता निच टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड (रजिस्टार एवं टांसफर एजेन्ट) के पास करवाने के लिए, एक अनुरोध पत्र, अपने नाम, फोलियो नंबर, शेयरों की संख्या, सर्टिफिकेट नंबर इत्यादि तथा खाता विवरण का उल्लेख करते हुए ई–मेल आईडी nichetechpl@nichetechpl.com पर 23 सितम्बर, 2020 को या उससे पहले भेजना होगा। । सदस्य जो विच्छेदन तिथि (कट-ऑफ डेट) 23 सितम्बर, 2020 को भौतिक या अभौतिक रूप में शेयरों के घारक हैं. 40वीं एजीएम की सूचना में उल्लेखित साघारण तथा विशेष व्यवसायों के संबंध में अपना वोट इलेक्ट्रॉनिक विधि से सेन्ट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड ('सीडीएसएल') के इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम ('रिमोट ई-वोटिंग') के जरिये डाल सकते हैं।

40वीं एजीएम की सूचना में उल्लेखित साधारण तथा विशेष व्यवसाय का निष्पादन इलेक्ट्रॉनिक साधनों द्वारा वोटिंग के माध्यम से किया जाएगा

सभी सदस्यों को सूचना दी जाती है कि :-

तिथि : 05-09-2020

रिमोट ई-वोटिंग आरंभ होने की तिथि एवं समय : 26 सितम्बर, 2020 को (पूर्वा. 09.00 बजे) रिमोट ई-वोटिंग समाप्त होने की तिथि एवं समय : 29 सितम्बर, 2020 को (अप. 05.00 बजे) (iv) रिमोट ई-वोटिंग द्वारा अथवा 40वीं एजीएम के दौरान ई-वोटिंग सिस्टम द्वारा वोट डालने के अधिकार निर्धारण हेतु विच्छेदन तिथि (कट-ऑफ डेट) 23 सितम्बर, 2020 है ;

(v) कोई व्यक्ति जो ई-मेल द्वारा एजीएम की सूचना मेजी जाने के बाद कम्पनी का सदस्य बनता है और विच्छेदन तिथि (कट-ऑफ डेट) 21 अगस्त, 2020 को शेयर धारक है, <u>camaccommercial@gmail.com</u> पर अनुरोघ मेजकर लॉगइन आईडी तथा पासवर्ड प्राप्त कर सकता है।

(vi) सदस्यगण नोट करें कि क) उपरोक्त तिथि और समय के बाद सीडीएसएल द्वारा रिमोट ई-वोटिंग मॉड्यूल वोटिंग के लिए निष्क्रिय कर दिया जाएगा तथा सदस्य द्वारा किसी प्रस्ताव पर एक बार वोट डाल दिए जाने के बाद उसमें परिवर्तन की अनुमति नहीं होगी ; ख) सदस्य, जो एजीएम से पहले रिमोट ई-वोटिंग द्वारा अपना वोट डाल चुके हैं, वीसी सुविध के माध्यम से एजीएम में भाग ले सकते हैं, परंतु उनको एजीएम के दौरान ई-वोटिंग सिस्टम द्वारा दोबारा वोट डालने की अनुमति नहीं होगी : ग) एजीएम में भाग ले रहे सदस्य, जिन्होंने रिमोट ई-वोटिंग द्वारा अपना वोट नहीं डाला है, एजीएम के दौरान ई-वोटिंग सिस्टम द्वारा वोट ढालने का हकदार होंगे ; घ) कोई व्यक्ति, जिसका नाम विच्छेदन तिथि (कट-ऑफ डेट) को सदस्य पंजिका में दर्ज है, वह रिमोट ई-वोटिंग की सुविधा का लाभ प्राप्त करने, वीसी सुविधा के माध्यम से एजीएम में भाग लेने तथा एजीएम के दौरान ई-वोटिंग का हकदार होगा।

एजीएम में माग लेने और ई-वोटिंग सिस्टम से ई-वोटिंग के संबंध में किसी संदेह की स्थिति में आप www.evotingindia.com के हेल्प सेक्शन पर उपलब्ध शेयरधारकों के लिए ई-वोटिंग यूजर मैनुअल तथा बहुधा पूछे जाने वाले प्रश्न ("एफएक्य'जू") का संदर्भ ग्रहण कर सकते हैं अथवा helpdesk.evoting@cdslindia.com को ई-मेल लिख सकते हैं अथवा श्री नितिन कृन्दर (022-23058738) अथवा श्री महबूब लखानी (022-23058543) अथवा श्री राकेश दाल्वी (022-23058542) से सम्पर्क कर सकते हैं।

म्पनी के सदस्यों की पंजिका तथा शेयर अंतरण बहियां 24 सितम्बर, 2020 से 30 सितम्बर, 2020 तक (दोनों तिथियों सहित) बंद रहेंगी। वास्ते कैमैक कॉमर्शियल कम्पनी लिमिटेड

सरिम श्रीवास्तव

पहला मैच मुंबई और चेन्नई के बीच होगा

भारतीय क्रिकेट बोर्ड (बीसीसीआई) ने लंबे इंतजार के बाद रविवार को इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) का कार्यक्रम जारी कर दिया और परंपरा के अनसार मौजदा चैंपियन मंबई इंडियन्स 19 सितंबर को अबुधाबी में पहले मैच में पिछले साल के उप विजेता चेन्नई सुपरिकंग्स से भिडेगा। भारत में कोविड-19 के मामलों के बढने के कारण विश्व की सबसे बडी टी20 लीग का आयोजन इस साल संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) के तीन स्थानों दुबई, अबुधाबी और शारजाह में किया जाएगा। ट्रनीमेंट के उदघाटन मैच के बाद अगले दिन दुबई में दिल्ली कैपिटल्स और किंग्स इलेवन पंजाब आमने सामने होंगे जबकि 21 सितंबर को सनराइजर्स हैदराबाद और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के बीच मैच होगा। शारजाह में पहला मैच 22 सितंबर को राजस्थान रॉयल्स और चेन्नई सुपरिकंग्स के बीच खेला जाएगा। बीसीसीआई की विज्ञप्ति के अनुसार कुल दस दिन दो-दो मैच खेले जाएंगे।

otice is hereby given that 27th Annual General Meeting (AGM) of the m Co. will be held on Wednesday, the 30th Sept.2020 at 9.00 A.M. at h I4 Palla Gaon Delhi-110036 to transact the business mentioned in the

remote e-vicing by coulding logist - as a passwitter by we remail to helpidesk-evoling@colisinal.com/adming@sylerer.a memoring their biolo no.DP ID & Client ID No. However another than the control of the control of the control of the seating of the S. passwort can be used for remote a Facility for colory through ballet gaper shall also be made evalual Facility for colory through ballet gaper shall also be made evalual to ye remote evolving, shall be able to exercise their right at the Nation of 27th ACM is evaluable no exercise their right at the Nation of 27th ACM is evaluable no exercise their right at the Nation of 27th ACM is evaluable no exercise their right at the logist of the ACM is evaluable no exercise their right at the logist of the ACM is evaluable no exercise their right at the logist of the ACM is evaluable no exercise their right at the logist of the ACM is evaluable no exercise their right at the logist of the ACM is evaluable no exercise their right at the logist of the ACM is evaluable no exercise their right at the logist of the ACM is evaluable no exercise their right at the logist of the ACM is evaluable no exercise their right at the logist of the ACM is evaluable no exercise their right at the logist of the ACM is evaluable no exercise their right at the logist of the ACM is evaluable no exercise their right at the logist of the ACM is exercise their right at the logist of the ACM is exercise their right at the logist of the ACM is exercise the logist of the logist of the ACM is exercise the logist of the log

हिमालय फूड इंटरनैशनल लिमिटेड

(पूर्वतः, हिमालय इंटरनैशनल लिमिटेड)

पंजी. कार्यालय : 118, प्रथम तल, गगनदीप बिल्डिंग, राजेन्द्र प्लेस, नई दिल्ली-110008 फोन : 91 11 45108609ए फैक्स : 91 1704 225178 ई-मेल आईडी : cs@himalyainternational.com

> वेबसाइट : www.himalayafoodcompany.com सार्वजनिक सूचना – 29वीं वार्षिक सामान्य बैठक

एतदद्वारा सूचना दी जाती है कि कोविड–19 वैश्विक महामारी फैलने के कारण, हिमालय फूड इंटरनैशनल लिमिटेड (पूर्वतः हिमालय इंटरनैशनल लिमिटेड) ("कम्पनी") के सदस्यों की 29वीं वार्षिक सामान्य बैठक (एजीएम/बैठक) कम्पनी अधिनियम् 2013 के लागू प्रावधानों और तदधीन विरचित नियमों के साथ पठित कार्पोरेट मंत्रालय द्वारा जारी जनरल सर्कूलर नंबर 14/2020 दिनांकित 8 अप्रैल, 2020, 17/2020 दिनांकित 13 अप्रैल, 2020, 20/2020 दिनांकित 5 मई, 2020 (सामूहिक रूप से 'एमसीए सर्कुलर्स' कहे गए हैं) तथा भारतीय प्रतिभृति एवं विनिमय बोर्ड द्वारा जारी सर्कुलर नंबर सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएमडी/1/सीआईआर/पी/2020/70 दिनांकित 12 मई, 2020 ('सेबी सर्कुलर') के अनुपालन में द्वि-मार्गी वीडियो कॉन्फ्रेन्स ("वीसी")/अन्य ऑडियो विजुअल मीन्स ("ओएवीएम") के माध्यम से आयोजित की जाएगी। कम्पनी के सदस्यों की 29वीं वार्षिक सामान्य बैठक बुधवार, 30 सितम्बर, 2020 को अप. 4.30 बजे (आईएसटी) सेन्ट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड (सीडीएसएल) द्वारा उपलब्घ कराई गई वीसी/ओएवीएम सुविघा के माध्यम से एजीएम आयोजन की सूचना में सूचीबद्ध व्यवसायों के निष्पादन हेतु आयोजित की जाएगी।

एजीएम की सूचना की ई—कॉपी 2019—20 की वार्षिक रिपोर्ट (वार्षिक रिपोर्ट) सहित कम्पनी की वेबसाइट www.himalayafoodcompany.com पर तथा सीडीएसएल की वेबसाइट www.evotingindia.com पर उपलब्ध होगी। इसके अतिरिक्त, एजीएम की सूचना स्टॉक एक्सचेंजेज नामतः बीएसई लिमिटेड ("बीएसई") की वेबसाइट www.bseindia.com पर भी उपलब्ध होगी।

सदस्यगण एजीएम में केवल वीसी/ओएवीएम सुविधा के माध्यम से ही भाग ले सकते हैं, जिसका विस्तृत विवरण कम्पनी द्वारा एजीएम की सूचना में उपलब्ध कराया जाएगा। तदनुसार, कृपया नोट करें कि कोविड–19 के संबंध में सरकारी अधिकारियों द्वारा जारी निर्देशों का अनुपालन सुनिश्वित करने के लिए कम्पनी की 29वीं एजीएम में व्यक्तिगत रूप से माग लेने हेतु कोई व्यवस्था नहीं की गई है। वीसी/ओएवीएम सुविधा के माध्यम से बैठक में भाग लेने वाले सदस्यों की गिनती कम्पनी अधिनियम, 2013 की घारा 103 के तहत गणपूर्ति गणना के प्रयोजनार्थ की जाएगी।

एजीएम की सूचना, वार्षिक रिपोर्ट सहित इलेक्ट्रॉनिक विधि से उन सदस्यों को भेजी जाएगी जिनका ई-मेल पता कम्पनी / रजिस्ट्रार एवं ट्रांसफर एजेन्ट ("आरटीए") / डिपॉजिटरी पार्टिसिपैंट्स ("डीपी'ज") के पास पंजीबद्ध हैं। सेबी सर्कुलर के अनुसार किसी भी सदस्य को एजीएम की सूचना तथा वार्षिक रिपोर्ट की कोई भौतिक प्रति नहीं भेजी जाएगी। जिन सदस्यों ने अभी तक अपना ई–मेल पता पंजीबद्ध नहीं करवाया है, उनसे एजीएम की सूचना तथा वार्षिक रिपोर्ट इलेक्ट्रॉनिक विधि से प्राप्त करने तथा ई—वोटिंग के लिए लॉगइन आईडी तथा पासवर्ड प्राप्त करने के लिए अपना ई—मेल पता पंजीबद्ध कराने हेतू, बुधवार, 30 सितम्बर, 2020 के अप. 5.00 बजे (आईएसटी) से पहले निम्नवर्णित प्रक्रिया का पालन करने का अनुरोध किया जाता है।

(i) भौतिक शेयरधारकों हेतु – कृपया आवश्यक विवरण जैसेकि फोलियो नंबर, शेयरधारक का नाम, शेयर प्रमाणपत्र की स्कैन की गई प्रति (फ्रंट और बैक), पैन (पैन कार्ड की स्कैन की गई स्व सत्यापित प्रति), आधार (आधार कार्ड की स्कैन की गई स्व सत्यापित प्रति) ई-मेल द्वारा <u>cs@himalyainternational.com</u> अथवा beetalrta@gmail.com को उपलब्ध करवाएं।

डीमैट शेयरघारकों हेतु – कृपया डीमैट खाता विवरण (सीडीएसएल-16 डिजिट लाभार्थी आईडी अथवा एनएसडीएल-16 डिजिट डीपीआईडी + सीएलआईडी), नाम, क्लाइंट मास्टर अथवा समेकित खाता विवरण की प्रति, पैन (पैन कार्ड की स्कैन की गई स्व सत्यापित प्रति), आधार (आधार कार्ड की स्कैन की गई स्व सत्यापित प्रति) ई-मेल द्वारा cs@himalyainternational.com अथवा इममजंसतजं / हउंपसण्बवउ को उपलब्ध करवाएं।

(iii) कम्पनी∕आरटीए उपरिवर्णित शेयरघारकों को लॉगइन क्रेडेन्शियल्स उपलब्ध कराने हेतु सीडीएसएल के साथ समन्वय

वास्ते हिमालय फूड इंटरनैशनल लिमिटेड हस्ता. 🗸

सुरभि माहेश्वरी

(कम्पनी सेक्रेटरी)

स्थान : दिल्ली

तिथि : 05–09–2020

SUNLOC

माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक विधि से डाल सकते हैं।

सुनील हेल्थकेयर लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय : 38ई/252-ए, विजय टावर, शाहपुरजाट, नई दिल्ली-110049 सीआईएन : एल24302डीएल1973पीएलसी189662/ई–मेल आईडी : <u>info@sunilhealthcare.com</u>/ वेब : <u>www.sunilhealthcare.con</u> फोन : +91-11-49435555 / 00, फैक्स : +91-11-43850087

46वीं वार्षिक सामान्य बैठक का आयोजन वीडियो कॉन्फ्रेन्सिंग ("वीसी") अथवा अन्य ऑडियो विजुअल मीन्स ("ओएवीएम") के माध्यम से सोमवार, 28 सितम्बर, 2020 को अप. 12.30 बजे /आईएसटी, ई-वोटिंग तथा बही बंदी की सचना एतदृद्वारा सूचना दी जाती है कि कम्पनी के सदस्यों की 46वीं वार्षिक सामान्य बैठक सोमवार, 28 सितम्बर, 2020 को अप. 12.30 बजे/आईएसटी, वीडियो कॉन्फ्रेन्सिंग ('वीसी')∕अन्य ऑंडियो विजुअल मीन्स ('ओएवीएम') के माध्यम से आयोजित की जाएगी, जिसके लिए कम्पनी का 38ई/252−ए.

विजय टावर, तृतीय तल, पंचशील कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स, शाहपुरजाट, नई दिल्ली–110049 स्थित पंजीकृत कार्यालय, एजीएम सूचना में सूचीबद्ध कार्पोरेट मंत्रालय (एमसीए) के सर्कुलर नंबर 20/2020 दिनांकित 05 मई, 2020 के अनुसार, कम्पनियों को वार्षिक सामान्य बैठक (एजीएम) का

ब्रायोजन वीडियो कॉन्फ्रेन्सिंग ("वीसी")/अन्य ऑडियो विजुअल मीन्स ("ओएवीएम") के माध्यम से, किसी उमय स्थान पर सदस्यों की मौतिक उपस्थिति के बिना, आयोजित करने की अनुमति दी गई है। परोक्त सर्कुलर्स के अनुपालन में, एजीएम की सूचना, कम्पनी अधिनियम, 2013 की घारा 102 के अनुसार व्याख्यात्मक विवरण की इलेक्ट्रॉनिक प्रतियों ाथा रिमोट ई–वोटिंग/ई–वोटिंग की प्रक्रिया, वीडियो कॉन्फ्रेन्सिंग के माध्यम से बैठक में भाग लेने संबंधी विवरण, वित्तीय वर्ष 2019–20 हेतु वार्षिक रिपोर्ट सहित इलेक्टॉनिक विधि से रविवार, 06 सितम्बर, 2020 को उन सदस्यों को उनके डिपॉजिटरी पार्टिसिपैंट (डीपी) के पास 24 जलाई. 2020

को पंजीबद्ध ई-मेल पते पर मेजी जा चकी है। इसके अतिरिक्त, वे कम्पनी की वेबसाइट https://www.sunilhealthcare.com/annualreports_पर, स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट नामतः <u>www.bseindia.com</u>पर तथा लिंक इनटाइम इंडिया प्रा. लि. की वेबसाइट https://instavote.linkintime.co.in पर मी उपलब्ध है। र सदस्य जो विच्छेदन तिथि (कट–ऑफ डेट) अर्थात सोमवार, 21 सितम्बर, 2020 को भौतिक अथवा अभौतिक रूप में शेयरों के घारक हैं. एजीएम ें सूचीबद्ध व्यवसायों पर अपना बोट लिंक इनटाइम प्राइवेट लिमिटेड के इलेक्ट्रॉनिक इंस्टावोट प्लेटफार्म : <u>https://instavote.linkintime.co.in</u>

सदस्यगण नोट करें कि :-रिमोट ई—वोटिंग अवधि शुक्रवार, 25 सितम्बर, 2020 को पूर्वा. 9.00 बजे आरंम होगी तथा रविवार, 27 सितम्बर, 2020 को अप. 5.00 बजे समाप्त होगी और उसके बाद ई-वोटिंग मॉड्यूल ई-वोटिंग एजेन्सी द्वारा निष्क्रिय कर दिया जाएगा।

शेयरधारक द्वारा किसी प्रस्ताव पर एक बार वोट ढाल दिए जाने के बाद, सदस्य को उसमें कोई परिवर्तन करने की अनुमति नहीं होगी। iii) सदस्यों के वोटिंग अधिकार कम्पनी की प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी में विच्छेदन तिथि (कट-ऑफ डेट) अर्थात सोमवार, 21 सितम्बर, 2020 के

उनके शेयरों के अनुपात में होंगे। ii) कोई व्यक्ति, जो एजीएम की सूचना प्रेषित किए जाने के बाद कम्पनी के शेयर अर्जित करता है तथा कम्पनी का सदस्य बनता है और विच्छेदन

तिथि (कट-ऑफ डेट) अर्थात 21 सितम्बर, 2020 को शेयरचारक है. <u>enotices@linkintime.co.in</u> अथवा <u>delhi@linkintime.co.in</u> पर अनुरोध मेज कर लॉगइन आईडी और पासवर्ड प्राप्त कर सकता है। तथापि, यदि आप एलआईआईपीएल ई-वोटिंग प्लेटफार्म नामतः https://instavote.linkintime.co.in के साथ रिमोट ई-वोटिंग के लिए पहले से पंजीकृत हैं, तो आप अपनी विद्यमान यूजर आईडी तथा पासवर्ड का प्रयोग अपना वोट डालने के लिए कर सकते हैं। यदि आप अपना पासवर्ड मूल गए हैं, तो आप अपना पासवर्ड https://instavote.linkintime.co.in पर उपलब्ध "Forgot User Details/Password" विकल्प का प्रयोग कर दोबारा बना सकते हैं अथवा एलआईआईपीएल से <u>enotices@linkintime.co.in</u> पर सम्पर्क कर सकते हैं अथवा फोन : 022—4918 6000 पर कॉल कर सकते

v) कोई व्यक्ति, जिसका नाम डिपॉजिटरीज द्वारा अनुरक्षित लामार्थी स्वामियों की पंजिका में अथवा सदस्यों की पंजिका में विच्छेदन तिथि (कट—ऑफ डेट) को दर्ज मौजूद है, केवल वही व्यक्ति रिमोट ई-बोटिंग/वार्षिक सामान्य बैठक में ई-बोटिंग के माध्यम से वोट डालने की सुविधा प्राप्त करने का हकदार होगा।

सदस्य रिमोट ई-वोटिंग द्वारा अपना वोट डालने के बाद भी एजीएम में भाग ले सकता है, परंतु एजीएम में पुनः अपना वोट डालने के हकदार

vi) श्री तारा चंद शर्मा, कार्यरत कम्पनी सेक्रेटरी (सदस्यता संख्या 5749 और सीपी संख्या 4078 है) तथा मैसर्स जैन शर्मा ऐंड एसोशिएट्स, कम्प-सेक्रेटरीज, जयपुर के स्वामी, को ई-बोटिंग तथा रिमोट ई-बोटिंग प्रक्रिया की संवीक्षा निष्पक्ष एवं पारदर्शी ढंग से करने हेतु संवीक्षक नियुक्त किया गया है तथा परिणाम की घोषणा वार्षिक सामान्य बैठक की समाप्ति के बाद अधिकतम अडतालीस घंटे के भीतर की जाएगी।

/ii) यदि शेयरघारकों / सदस्यों को ई—वोटिंग के संबंध में कोई शंका है, वे https://instavote.linkintime.co.in पर हेल्प सेक्शन के अंतर्गत उपलब्ध बहुधा पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू'ज) तथा इंस्टावोट ई-वोटिंग मैनुअल देख सकते हैं अथवा enotices@linkintime.co.in पर ई-मेल भेज सकते हैं अथवा फोन : 022–4918 6000 पर सम्पर्क कर सकते हैं। सदस्यगण <u>delhi@linkintime.co.in, cs@sunilhealthcare.com</u> पर अथवा हमारे आरटीए से भी <u>rta@alankit.com</u> अथवा <u>lalit@alankit.com</u> पर सम्पर्क कर सकते हैं।

/iii)ई−वोटिंग तथा वीसी अथवा ओएवीएम के माध्यम से बैठक में भाग लेने के विस्तृत अनुदेशों के लिए, सदस्यों से बैठक की सूचना पढ़ने क अनुरोध किया जाता है।

क्षारे सूचना दी जाती है कि कम्पनी अधिनियम, 2013 की घारा 91 के साथ पठित कम्पनी (प्रबंधन और संचालन) नियमावली, 2014 के नियम 10 तथा सेबी (सूचीयन दायित्व एवं प्रकटन अपेक्षाएं) विनियमावली. 2015 के विनियम 42 के अनुसरण में कम्पनी के सदस्यों की पंजिका तथा शेयर अंतरण बहियां सोमवार, 21 सितम्बर, 2020 से सोमवार, 28 सितम्बर, 2020 तक (दोनों दिन सहित) कम्पनी की वार्षिक सामान्य बैठक के प्रयोजनार्थ

हस्ता./-सन्तोष कुमार शर्मा थान - नई दिल्ली दिनांकित - 06 सितम्बर, 2020 ई–मेल ः cs@sunilhealthcare.com

बोर्ड के आदेश द्वारा

वास्ते सुनील हेल्थकेयर लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय : 38ई / 252-ए, विजय टावर, शाहपुरजाट, नई दिल्ली-110049 सीआईएन : एल24302डीएल1973पीएलसी189662 फोन: +91-11-49435555 / 00, फैक्स: +91-11-4385008 र्ड-मेल आईडी : info@sunilhealthcare.com वेबसाइट : www.sunilhealthcare.com

NEWS FECUS

Govt asks auto industry to cut imports, raise exports

Centre will support in increasing production, boosting employment, says Gadkari

Amit Panday & Malyaban Ghosh

MUMBAI/NEW DELHI

enior ministers of the Union government took Prime Minister Narendra Modi's clarion call of Atmanirbhar Bharat forward and urged automakers to reduce their dependence on imports, increase exports, and make India a global manufacturing hub for automobiles and auto compo-

"I request the auto industry to not depend on $imports, develop\,import\,substitutes, and\,expand$ $its\, export\, business.\, The\, government\, will\, support\,$ you in increasing production and boosting employment potential," said Nitin Gadkari, the Union minister for road transport and highways, and micro, small and medium enterprises.

Minister of railways, and commerce and industry Piyush Goyal and minister of environment, forest and climate change Prakash Javadekar also urged the auto sector to boost local manufacturing at the annual conventions organized by the Society of Indian Automobile Manufacturers (Siam) and the Automotive Component Manufacturers Association of India (ACMA), held on 4-5 September.

This is also likely to boost the economy by creating enormous job opportunities at a time that the country is struggling to shake off the adverse effect of the lockdown imposed to check the spread of coronavirus.

Gadkari urged the industry to develop import substitutes and increase investment in research and development (R&D) and export volumes and said that the government will set up industrial clusters along the 12-lane, 1,400km Mumbai-Delhi expressway. "The expressway passes through the backward tribal areas of Haryana, Rajasthan, Gujarat, Madhya Pradesh, and Maharashtra. Land acqui-

sition cost in these areas is low. The land rate in Gurugram or any big city is ₹2-2.5 crore per acre. I am willing to give you land in these areas for ₹10-15 lakh per acre. I request the auto industry to develop industrial clusters on the land parcels," the road transport and highways minister said. Gadkari said his ministry will take the responsibility for connectivity to ports, railway



The government is considering an increase in duties on import of auto components.

THE sector must aim

to become a global manufacturing hub

says Piyush Goyal

stations and airports.

GOVT will set up

industrial clusters

says Nitin Gadkar

along the Mumbai-

Citing examples of existing auto hubs, such as Sanand, Manesar, and Hosur, Goyal said India must look at boosting its domestic capabilities and expand its global economic engagement.

"The auto industry should reduce dependence on imports, specifically in areas such as steel, tyres, and electronic parts," Goyal said.

Goyal said he has requested the industry to come up with a viable model for setting up semi-

ROAD TO SELF-RELIANCE

GADKARI urged the

industry to develop

import substitutes

investment in R&D

conductor fabrication units, which will help

increase production of electronic components.

"India needs to focus immediately on setting up

fabrication facilities because that is the root of the

entire electronics chain. The government is will-

ing to extend support to set these up," Goyal said.

One or more large automakers may look at setting

up such units, and even consider moving existing

and increase

must aim to become a global manufacturing hub for sunrise sectors, including electric and autono-The government is working with other countries to sort out tariff and non-tariff barriers,

fabrication units from other countries to India, he

said. "I think it should be driven by the private sec-

tor and the government setting up a fabrication

unit is not a good idea." Goyal said. The industry

including a free trade agreement with the European Union for India to become a preferred supplier. "We are also considering a credit guarantee model to help exporters. Under the model they may get insurance of up to 90% of their export value. The scheme should be finalized soon,"

Goyal said. Gadkari and Goyal also hinted that the government is considering an increase in duties on import of auto components. Javadekar said that the government was evaluating the possibility of reducing goods and services tax for two- and three-wheelers to revive local demand,

while Gadkari said that the much awaited vehicle

scrappage policy is in its final stages of approval

Sabse Pehle

and will be rolled out within a month. amit.p@livemint.com

Sales hurdle ahead, Maruti slows down

FROM PAGE 1

cuts oil prices

as coronavirus

bit.ly/3btZox4

sap energy

₹3,248 crore last year. Lower sales and profits at

Maruti Suzuki are a cause for worry at its Japanese parent as it contributes more than half of Suzuki's sales and profits.

Analysts attributed Maruti Suzuki's revision of sales targets to diminishing hopes of an immediate V-shaped recovery in automobile demand in India.

"Regulatory environment became quite volatile in 2017, and the affordability of customers took a hit due to the new norms and economic slowdown. Going forward, the number of first-time customers will reduce since car prices have gone up while incomes have remained stagnant," said Puneet Gupta, associate director, IHS Markit. The data and analytics firm has also lowered its annual sales projection for the Indian light vehicle market to 8 million by 2034, given the prevailing economic conditions. In 2018, the London-based firm predicted annual light-vehicle sales to reach around 9 million to 9.5 million by 2030.

To be sure, India's automotive sector has been facing headwinds for several quarters, and covid has only worsened it. Vehicle manufacturers have been witnessing a double-digit decline in sales from the second half of FY19 due to economic slowdown, higher insurance costs and an increase in vehicle prices due to transition to new safety and emission norms.

R.C. Bhargava, chairman, Maruti Suzuki, said the sales forecast of 10 million by 2030 was made when sales were growing by 8% each year, and Maruti was growing in double-digits. "In the last two fiscals, that has changed and demand for cars will depend on recovery in the economy," he said, adding that "the decline in sales last year itself "put us in doubt about the 10 million figure".

PNB Finance and Industries Limited CIN No.:-L65929DL1947PLC001240: Website:-www.pnbfinanceandindustries.com Regd. Office: - 1st Floor, Express Building, 9-10,

Bahadur Shah Zafar Marg, New Delhi-110002 Telephone:- +91-7303495375; E - mail: pnbfinanceindustries@gmail.com NOTICE OF THE 125TH ANNUAL GENERAL MEETING,

Notice is hereby given that:

The 125th Annual General Meeting ("AGM") of the Company will be convened or Wednesday. September 30. 2020 at 10:00 a.m. IST through Video Conferencing ("VC") facility to transact the ordinary and special businesses, as set out in the notice of the 125th AGM, in compliance with the applicable provisions of the Companies Act 2013 and rules framed thereunder and the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 read with general read with General Circular No 14/2020 datedApril 08, 2020, General Circular No. 17/2020dated April 13, 2020 and General Circular No. 20/2020 dated May 5, 2020, andother applicable circulars issued by the Ministry of Corporate Affairs ("MCA Circulars") and Circular no SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 dated May 12, 2020 issued by the Securities and Exchange Board of India ("SEBI Circular"), without the physical presence of the members at a common venue

In terms of MCA Circulars and SEBI Circulars the requirements of sending physical copy of the notice of AGM and Annual Report to the Members have been dispensed therefore the company is sending notice of its 125" AGM and Annual Reports 2019-20 to the members at their registered email id address, the aforesaid documents will also be available on the Company's website at www.pnbfinanceandindustries.com and on the website of NSDL https://www.evoting.nsdl.com and those Members holding shares in physical or demat form, whose email addresses are not registered with the Company, are required to register their email addresses with Skyline Financia Services Private Limited (Registrar and Transfer Agent) by sending a request letter specifying Name, Folio Number, Number of Shares, Certificate Number etc. & account details for payment of dividend through Electronic Clearing Service at email ID parveen@skylinerta.com on or before September 23, 2020

Members holding shares either in physical form or in dematerialized form, as on the cut-off date of September 23, 2020 may cast their vote electronically on the ordinary and special businesses, as set out in the Notice of the 125th AGM through electronic voting system ("remote e-voting") of National Securities Depository Limited ("NSDL") All the members are informed that

The ordinary and special business, as set out in the Notice of the 125th AGM will be transacted through voting by electronic means

Date and time of commencement of remote e-voting: September 26, 2020

Date and time of end of remote e-voting: September 29, 2020 (5.00 p.m.);
The cut-off date, for determining the eligibility to vote through remote e-voting

or through e-voting system during the 125th AGM is September 23, 2020; Any person, who becomes Member of the Company after sending the Notice of the AGM by email and holding shares as on the cut-off date is August 21, 2020;

may obtain the login ID and password by sending a request a

evoting@nsdl.co.in or pnbfinanceindustries@gmail.com. Members may note that a) the remote e-voting module shall be disabled by NSDL after the aforesaid date and time for voting and once the vote on a resolution in cast by the Member, the Member shall not be allowed to change i subsequently; b) the Members who have cast their vote by remote e-voting prior to AGM may participate in the AGM through VC facility but shall not be entitled to cast their vote again through the e-voting system during AGM; c) the members participating in the AGM and who had not cast their vote by remote e voting, shall be entitled to cast their vote through e-voting system during the AGM; d) a person whose name is recorded in the Register of Members as on the cut-off date only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting participating in the AGM through VC facility and e-voting during the AGM.

In case of any queries, you may refer the Frequently Asked Questions (FAQs) for Shareholders and e-voting user manual for Shareholders available at the download section of www.evoting.nsdl.com or call on toll free no.: 1800-222 990 or send a request at evoting@nsdl.co.in or contact Ms. Pallavi Mhatre Manager or Ms. Soni Singh, Asst. Manager, National Securities Depository Limited, Trade World, 'A' Wing, 4th Floor, Kamala Mills Compound, Senapat Bapat Marg, Lower Parel, Mumbai - 400 013, at the designated email id evoting@nsdl.co.in or pallavid@nsdl.co.in or SoniS@nsdl.co.in or a telephone nos .:- +91 22 24994545, +91 22 24994559, who will also address

The Register of Members and Share Transfers Books of the Company will remain closed from September 24, 2020 to September 30, 2020 (both days inclusive) for the purpose of payment of dividend. Members who will be unable to register their Electronic Bank mandate with the company, the Company shall dispatch the dividend's cheque to members who will not Registered their details at the earliest once the normalcy is restored.

the grievances connected with the voting by electronic means.

PNB Finance and IndustriesLimi

September 05, 2020

Shanti Guaranteed

Shweta Saxena



Investor Education and Protection Fund Authority

Ministry of Corporate Affairs Government of India



PUBLIC ANNOUNCEMENT

Investor/Depositors whose shares, unpaid dividends, matured deposits or debentures etc. have been transferred to Investor Education and Protection Fund under Companies Act, 1956/2013 can now claim online refund

For Investors: How to File the Claim?

- Register yourself on IEPF Website: www.iepf.gov.in
- Fill the new web form IEPF-5 ONLINE
- Attach scanned copy of requisite documents with form
- Take print out of auto generated advance receipt and indemnity bond (IEPF website ->Forms-> Web Forms IEPF-5 -> MCA Services)
- Send all documents to the company
- Company to e-verify the claim in 30 days
- On the basis of verification report, refund of shares and amount by IEPF Authority.

Note: Claimants are advised to file e-form IEPF-5 only when all documents are available

FOR COMPANIES: How to Process?

- File the details of nodal officer in new e-form IEPF-2(IEPF website -> Forms -> Register for filling web form.
- e-verify the form IEPF-**5** within 30 days of filing of the form.
- Company to retain all original documents.


For ANY QUERY Claimants can call Toll Free Number 1800-114-667 or log on to www.iepf.gov.in or send mail to Email: iepf@mca.gov.in

Note: Claimants are requested to BEWARE of any middlemen or broker for settlement of claims. The process of filing the claim to IEPF Authority is simple and transparent. The requirement of documents is enumerated in the Instruction kit as well as in the FAQ section of the official website of IEPFA at www.iepf.gov.in.

Investor Education and Protection Fund Authority


A Government of India initiative towards Investor Education, Awareness and Protection "Empowered Investor, Educated Investor, Smart Investor"

Follow us on:


















regular Income







GUARANTEED ADDITIONS

during deferment period



For details, contact your Agent/Nearest LIC Branch OR SMS YOUR CITY NAME to 56767474 OR Visit www.licindia.ir

Follow us : 1 You Tibe 1 O LIC India Forever

Plan is also available online

BEWARE OF SPURIOUS / FRAUD PHONE CALLS!

Zindagi ke saath bhi, Zindagi ke baad bhi.